



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022

माघ 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 198/नौ-1-2022-01परि0-21

लखनऊ, 11 फरवरी, 2022

अधिसूचना

प0आ0-34

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 क की उपधारा (1), (3), (4) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में वार्डों/कक्षों/स्थानों को आरक्षित/आवंटित करने के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 93/नौ-1-2022-01परि0-21, दिनांक 17 जनवरी, 2022 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 141/9-1-2022-01परि0-21, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 क की उपधारा (1), (3), (4) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन)

नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में वार्डों/कक्षों/स्थानों को आरक्षित/आवंटित किया जाता है।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज के वार्डों का आरक्षण

क्रमांक	कक्ष की संख्या	कक्ष का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1	1	अम्बेडकर नगर	अनु0 जाति महिला
2	2	लोहिया नगर	अनु0 जाति महिला
3	3	सुभाष नगर	अनु0 जाति
4	4	शाहूजी नगर	अनु0 जाति
5	5	गांधी नगर	अनारक्षित
6	6	आजाद नगर	अनारक्षित
7	7	चौधरी चरण सिंह नगर	अनारक्षित
8	8	महाराणा प्रताप नगर	अनारक्षित
9	9	सरोजनी नगर	अनारक्षित महिला
10	10	विस्मिल नगर	पिछड़ी जाति
11	11	राजाजीपुरम्	पिछड़ी जाति
12	12	सेनानी नगर	पिछड़ी जाति
13	13	देवी नगर	अनारक्षित महिला
14	14	मुखर्जी नगर	पिछड़ी महिला
15	15	कबीर नगर	अनारक्षित
16	16	सरदार पटेल नगर	अनारक्षित
17	17	इन्दिरा नगर	अनारक्षित
18	18	लक्ष्मीबाई नगर	अनारक्षित
19	19	शिवाजी नगर	पिछड़ी महिला
20	20	दीनदयाल उपाध्याय नगर	अनारक्षित
21	21	विवेकानन्द नगर	अनारक्षित महिला
22	22	नेहरू नगर	अनारक्षित
23	23	शास्त्री नगर	अनारक्षित महिला
24	24	चित्रगुप्त नगर	पिछड़ी महिला
25	25	मीराबाई नगर	पिछड़ी जाति

आज्ञा से,
डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।